

Shalini Convent School

Class notes and Assignment

Class – 6th
Sub - Hindi

Topic – पाठ 1 वह चिड़िया जो
कवि- केदारनाथ अग्रवाल

Note – दिए गए कार्य को हिंदी कॉपी में लिखें तथा तय तिथि को कॉपी अपने विषय शिक्षिका को जाँच करने हेतु आवश्यक रूप से विद्यालय में जमा करें।

प्रश्नोत्तर –

प्रश्न 1. कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ।
उत्तर- कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं-

- वह नीले पंखोंवाली सुंदर चिड़िया है।
- चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है।
- वह बहती नदी का पानी पीती है।
- चिड़िया का आकार छोटा है।
- उसे आज़ादी बहुत पसंद है।

प्रश्न 2. तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो।
उत्तर- 'नन्ही चिड़िया', 'सुंदर चिड़िया' या 'परिश्रमी चिड़िया'

प्रश्न 3. इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन-किन चीजों से प्यार है?

उत्तर- इस कविता के आधार पर नन्ही चिड़िया को खेतों में लगे ज्वार-बाजरे की फलियों से, वन से, एकांत से तथा जिस नदी से वह ठंडा पानी पीती है, उससे बहुत प्यार है।

प्रश्न 4 .आशय स्पष्ट करो:

क) रस उंडेल कर गा लेती है

उत्तर- इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतना मीठापन है कि जब वो गाती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है।

ख) चढ़ी नदी का दिल टटोलकर

जल का मोती ले जाती है।

उत्तर- इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया साहसी है। वह यूँ ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उफनती हुई नदी के बीच से जल की बून्द रूपी मोती लेती है। इसी के साथ, वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखकर, उसका मन टटोलकर, उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है।